



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30—अक्टूबर 06, 2006 (आश्विन 8, 1928)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30—OCTOBER 6, 2006 (ASVINA 8, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 5 सितम्बर 2006

सं. एचआरडी/1(3)/2004/आर आर--कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड गजट अधिसूचना संख्या पी-IV/2(3)/82/वर्ग-/ भाग-II दिनांक 15 मई, 2002 द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रवर्तन अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:--

- (i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रवर्तन अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी संशोधन भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे :--
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूची के कॉलम-12 के अन्तर्गत प्रविष्टि के लिये, उप पैरा (ii) में 'उच्च श्रेणी लिपिक' शब्दों के स्थान पर "सामाजिक सुरक्षा सहायक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए तथा निम्न प्रकार पढ़ा जाए :--

पदोन्नति (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोट 25%)

वे अनुभाग पर्यवेक्षक तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिनकी 5000-8000 रु. के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो तथा वे डी

ई ओ (ग्रेड-ग) जिनकी 5000-8000 रु. के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो तथा वे डी ई ओ (ग्रेड-ग) जिन्होंने (ग्रेड-क) में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा वे सामाजिक सुरक्षा सहायक/सहायक/आशुलिपिक/डी ई ओ ग्रेड 'क' तथा 'ख' जिनकी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 4000-6000 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।

आ. विश्वनाथन
सचिव

सं. एचआरडी/1(3)/2004/आर आर--कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड गजट अधिसूचना संख्या एचआरडी/1(1)/2001/आर आर/सहायक दिनांक 09 सितम्बर, 2003 द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक (मुख्यालय), भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:--

- (i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक (मुख्यालय) संशोधन भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे :--
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूची के कॉलम-11 के अन्तर्गत प्रविष्टि के लिये "शेष 50% पदोन्नति द्वारा" शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा में तथा "50%

पदोन्नति द्वारा शीर्षक के अन्तर्गत अनुसूची के कालम 12 में 'उच्च श्रेणी लिपिक' शब्दों के स्थान पर "सामाजिक सुरक्षा सहायक" शब्दों को तथा 12 में प्रविष्टि के लिए "उच्च श्रेणी लिपिक" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक सुरक्षा सहायक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए तथा इस प्रकार पढ़ा जाए :--

कालम-11 शेष 50% पदोन्नति द्वारा :--

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय) के वे सामाजिक सुरक्षा सहायक (मुख्यालय) जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की अधिक की नियमित सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों के नाम चयन सूची में शामिल किए गए हैं उनकी पदोन्नति वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो इसके कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जायेगा।

कालम-12 पदोन्नति द्वारा 50%

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वे सामाजिक सुरक्षा सहायक (मुख्यालय) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

आ. विश्वनाथन
सचिव

सं. एचआरडी/1(3)/2004/आर आर--कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की

उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड गजट अधिसूचना संख्या पी-4/1(1)/92/आर आर/ दिनांक 28 जुलाई, 1992 द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक, (प्रधान लिपिक) (क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:--

1. (i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक, (प्रधान लिपिक) (क्षेत्रीय कार्यालय) संशोधन भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे :--

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची के कॉलम-12 के अन्तर्गत प्रविष्टि के लिये पैरा (1) तथा (2) में 'उच्च श्रेणी लिपिक' शब्दों के स्थान पर "सामाजिक सुरक्षा सहायक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये तथा उस पैरा को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :--

(1) 66 2/3% पदोन्नतियां उन सामाजिक सुरक्षा सहायकों में से वरिष्ठता के आधार पर परन्तु फिटनेस की शर्त पर की जाएगी जिन्होंने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 3(तीन) वर्ष की सेवा की हो।

(2) 33 1/3% पदोन्नतियां विभागीय परीक्षा के आधार पर उन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में से की जायेंगी जिन्होंने आशुलिपिक सहित सामाजिक सुरक्षा सहायक के रूप में 3(तीन) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

आ. विश्वनाथन
सचिव

नई दिल्ली-110066, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. सम्मेलन 5(15) 2004/उड़ीसा/13076--कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके उपरांत "योजना" के रूप में निर्दिष्ट, के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप पैरा (1) के उपबन्धों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.06.2000 को जारी तथा दिनांक 15.07.2000 को भारत के राजपत्र के खण्ड-4 के भाग-III में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(10)/94-98/ उड़ीसा/189 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष; केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एतद्द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल किए गए हैं :--

क्रम सं.	सदस्य का नाम व पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, उड़ीसा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग उड़ीसा सचिवालय, भुवनेश्वर	अध्यक्ष [पैरा 4(1)(ए) के अन्तर्गत]
2.	श्रम आयुक्त, यूनिट-III, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा	सरकारी सदस्य [पैरा 4(1)(बी) के अन्तर्गत]
3.	मुख्य निरीक्षक, फैंक्ट्रीज़ एवं बॉयलर्स, यूनिट-III, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा	

क्रम सं.	सदस्य का नाम व पदनाम	के रूप में नियुक्त
4.	श्री एस. के. मिश्रा, मुख्य कार्यकारी, जे. के. पेपर मिल्स, पो. आ., रायगड़ा, जिला रायगड़ा	सदस्य कर्मचारी पक्ष [पैरा 4(1)(सी) के अन्तर्गत]
5.	श्री आर. के. शर्मा, प्रबंध निदेशक, ज्योति अस्पताल, बुद्ध राजा, संबलपुर	
6.	श्री राम चन्द्र खुन्तिया, अध्यक्ष, स्टेट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कांग्रेस (इंटक), भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	सदस्य नियोक्ता पक्ष [पैरा 4(1)(डी) के अन्तर्गत]
7.	श्री लंबोधर नायक, अध्यक्ष, सीटू प्लॉट नं. 251, यूनिट-III, खारवैला नगर, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	
8.	श्री पी. के. दास, अध्यक्ष, उत्कल चैम्बर आफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज़, कटक	अतिरिक्त सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि [पैरा 4(1) के परन्तुक के अन्तर्गत] पैनल
9.	श्री डी. पी. भांजा, डी. जी. एम. (पी एण्ड ए), नाल्को	
10.	श्री योगेश मिश्रा डी. जी. एम. (पी ए), सेल राउरकेला	
11.	श्री विद्याधर बारिक, कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दुस्तान मजदूर सभा, क्वार्टर सं. एफ/17, सैक्टर-1, राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़	अतिरिक्त सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि [पैरा 4(1) के परन्तुक के अन्तर्गत] पैनल
12.	श्री द्युतिकृष्णा पंडा अध्यक्ष, ए. आई. टी. यू. सी. क्वार्टर सं. एफ 5/2 एम.एल.ए. कालोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर	
13.	ई. श्रीकान्त वर्मा, अध्यक्ष, बीएमएस बीजू पटनायक छाक, तुलसीपुर, कटक	

उड़ीसा क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की पदावधि, सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी। तथापि, प्रत्येक सदस्य सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित होने तक पदासीन रहेंगे।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आ. विश्वनाथन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

क.रा.बी. निगम

मुम्बई-400 013, दिनांक 24 अगस्त 2006

शुद्धि-पत्र

सं. 31-वी-34-11/स्था. शाखा/समन्वय--भारत के राजपत्र, भाग-III-खण्ड-4 संख्या 51 और 1 दिनांक 18.12.04 और 1.1.05 क्रमानुसार में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 31-वी-34-11/स्था. शाखा/समन्वय दिनांक 16.9.04, 6.10.04 और 7.12.04 में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाती हैं :---

निम्नलिखित स्थानीय समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचनाएं	पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	निम्नलिखित शब्द के बाद	निम्नलिखित शब्द प्रकाशित	निम्नलिखित पढ़ा जाये
—	6630	—	ऊपर से तीसरी पंक्ति	मुम्बई	400093	400013
अंधेरी	6630	6	दूसरी	सी	सुखसस्वामी	सुखस्वामी
जलगांव	6631	5	तीसरी	—	जलगांव	जलगांव
औरंगाबाद	6634	9	तीसरी	—	सर्व	सर्व
धुले	6635	5	दूसरी	—	3011	3091
कल्याण	6636	2	पहिली	अधिकारी	मुम्बई	कल्याण
इचलकरंजी	6641	6	छठी	जिला	काल्हापूर	कोल्हापूर
सोलापुर	03	02	दूसरी	आयुक्त	शब्द का प्रकाशित नहीं हुआ है।	का
पुलगांव	6658	08	चौथी	Taluka	Devil	Devli
सातारा	6658	02	तीसरी	Ravivar	Path	Peth
थाने	6662	08	पहिली	Umakant	Nikali	Nikalji
अमरावती	6664	02	दूसरी	Asstt.	Lbaour	Labour
चिखलथाना	6668	10	पहिली	—	Shri	Dr.
अकोला	6672	02	दूसरी	Asstt.	Lbaour	Labour
नागपुर	6675	अधिसूचना के ऊपर अधिसूचना की दिनांक 6.10.04 प्रकाशित नहीं हुई है।				दिनांक 6.10.04

एन. परसुरामन
अपर आयुक्त

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANIZATION

New Delhi-110066, the 5th September 2006

No. HRD/1(3)2004/RR.—In exercise of powers conferred by sub section 7 (a) of Section 5D of Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following Rules amending the Employees' Provident Fund Organization (Enforcement Officer/Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002 notified vide Gazette Notification No. P-IV/2(3) 82/Class/Pt. II dated 15th May 2002 namely :—

1. (i) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization (Enforcement Officer/Assistant Accounts Officer) Amendment Recruitment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. For entry under Column—12 of the Schedule, in sub-para (ii) the words 'Upper Division Clerks' may be substituted with the words "Social Security Assistants" and read as under :—
- (ii) Promotion (Limited Departmental Competitive Examination Quota—25%)

Section Supervisors and Junior Hindi translators with 3 years regular service in the pay scale of Rs. 5000—8000 and DEO (Gr. C) with three years regular service in the pay scale of Rs. 5000—8000 including those DEO (Gr. C) who have already put in 5 years regular service in DEO (Gr. A) and Social Security Assistants/Assistants/Stenographers/DEO Gr. 'A' and Gr. 'B' with 5 years regular service in the Scale of Rs. 4000—6000 in the respective regions.

A. VISWANATHAN
Secy.

No. HRD/1(3)2004/RR.—In exercise of powers conferred by sub section 7 (a) of Section 5D of Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following Rules amending the Employees' Provident Fund Organization Assistant (Headquarters) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification No. HRD/1(1)2001/RR/Assistant dated 9th September 2003 namely :—

1. (i) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization Assistant (Headquarters) Amendment Recruitment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. For entry under Column—11 of the Schedule, in sub-para under the head "Remaining 50% by promotion" and under Column 12 of the Schedule, under the head "By promotion—50% the word

'UDCs' may be substituted with the words "Social Security Assistants" and read as under :—

Column 11 : Remaining 50% by promotion :—

Social Security Assistants of Employees' Provident Fund Organization (Headquarters) who have rendered more than five years of regular service in the grade. The promotion of officials whose names have been included in the Select List shall be made in the order of seniority. Provided that where a person is not considered fit for such appointment in his turn, reasons therefor shall be recorded in writing.

Column 12 : By promotion—50%

Social Security Assistants of Employees' Provident Fund Organisation (Headquarters) who have rendered more than five years of regular service in the pay scale of Rs. 4000—6000.

A. VISWANATHAN
Secy.

No. HRD/1(3)2004/RR.—In exercise of powers conferred by sub section 7 (a) of Section 5D of Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following Rules amending the Employees' Provident Fund Organization Section Supervisor (Head Clerk) (Regional Offices), Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification No. P-IV/1(1)92/RR dated 28th July 1992 namely :—

1. (i) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization Section Supervisor (Head Clerk) (Regional Offices) Amendment Recruitment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. For entry under Column—12 of the Schedule, the words UDCs' appearing in para (1) and (2) may be substituted with the words "Social Security Assistants" and the sub paras be read as under :—
- (1) 66 2/3% by promotion of Social Security Assistants with 3 (three) years service rendered serving in the respective regional offices on the basis of seniority subject to rejection of unfit.
- (2) 33 1/3% by promotion of employees serving in the respective regional offices on the basis of a departmental examination restricted to those who have rendered not less than 3 (three) years service as Social Security Assistants including Stenographers failing which by direct recruitment.

A. VISWANATHAN
Secy.

New Delhi-110066, the 7th September 2006

No Conf. 5(15)2004/OR/13076.—In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, hereafter referred as "Scheme", and insupersession of the Notification No. Conf. 5(10)94-98/OR/189 Dated 19.06.2000 issued by the Employees' Provident Fund Organisation, Head Office, New Delhi which was published in The Gazette of India, Part-III, Section-4 on 15.07.2000, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Orissa consisting of the following persons namely :—

Sl. No.	Name & Designation of the Member	Appointment as
1	2	3
1.	Principal Secretary/Commissioner-cum-Secretary to the Government of Orissa, Labour & Employment Department, Secretariat of Orissa, Bhubaneswar.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner, Unit-III, Bhubaneswar, District.—Khurda, Orissa.	Official Members [Under Para 4(1)(b)]
3.	Chief Inspector of Factories and Boilers, Unit-III, Bhubaneswar, District.—Khurda, Orissa.	
4.	Shri S. K. Mishra, Chief Executive, J. K. Paper Mills, P.O. Rayagada, District Rayagada.	Members (Employers' side [Under Para 4(1)(c)])
5.	Shri R. K. Sharma, Managing Director, Joyti Hospital, Budha Raja, Sambalpur.	
6.	Shri Rama Chandra Khuntia, President, State Indian National Trade Union Congress (INTUC), Bhubaneswar, District—Khurda.	Members Employees' Representative [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri Lambodhar Nayak, President, CITU, Plot No. 251, Unit III, Kharvela Nagar, Bhubaneswar, District—Khurda.	
8.	Shri P. K. Das, President, Utkal Chamber of Commerce & Industries, Cuttack.	Additional Members Employers' Representative Under Proviso to Para 4(1)
9.	Shri D. B. Bhanja, D.G.M. (P & A), NALCO.	
10.	Shri Yogesh Mishra, D.G.M. (PA), SAIL, Rourkela.	
11.	Shri Bidyadhar Barik, Working President, Hindustan Mazdoor Sabha, Qrs. No. F/17, Sector-1, Rourkela, District—Sundargarh.	Additional Members Employees' Representative Under Proviso to Para 4(1)
12.	Shri Dyutikrushna Panda, President, AITUC, Qrs. No. F-5/2, M.L.A. Colony, Unit—IV, Bhubaneswar.	
13.	Er. Srikant Burma, President, B.M.S., Biju Patnaik Chhak, Tulasipur, Cuttack.	

The Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Orissa Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

A. VISWANATHAN
Central Provident Fund Commissioner

E.S.I. CORPORATION

Mumbai-400 013, the 31st August 2006

CORRIGENDUM

No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn.:—Gazette of India, Part-III Vol. 4 No. 51 and 1 dated 18.12.04 and 1.1.05 respectively, Notification No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn. dated 16.9.04, 6.10.04 and 7.12.04. The following corrections have been carried out.

Notification of re-constitution of following Local Committees	Page No.	Sr. No.	Line No.	After the following	Words Printed	Correction
—	6630	—	3rd line from Top	मुम्बई	400093	400013
Andheri	6630	6	2nd	सी	सुखस्वामी	सुखस्वामी
Jalgaon	6631	5	3rd	—	जलगांव	जलगांव
Aurangabad	6634	9	3rd	—	सर्व	सर्व
Dhule	6635	5	2nd	—	3011	3091
Kalyan	6636	2	1st	अधिकारी	मुम्बई	कल्याण
Ichalkaranji	6641	6	6th	जिला	कोल्हापूर	कोल्हापूर
Solapur	03	02	2nd	आयुक्त	Missing word 'का'	का
Pulgaon	6658	08	4th	Taluka	Devil	Devli
Satara	6658	02	3rd	Ravivar	Path	Peth
Thane	6662	08	1st	Umakant	Nikali	Nikalji
Amravarati	6664	02	2nd	Asstt.	Lbaour	Labour
Chikalthana	6668	10	1st	—	Shri	Dr.
Akola	6672	02	2nd	Asstt.	Lbaour	Labour
Nagpur	6675	Top of the notification-the date of notification i.e. 6.10.04 is missing.				Date of Notification 6.10.04.

N. PARASURAMAN
Addl. Commissioner